



मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

तूर्यनाद '22

चक्रव्यूह

**“राज़ छुपे हर एक शब्द में धीरे धीरे पढ़ना,
रुक रुक कर है दौड़ लगानी शांत चित्त से लड़ना”**

अर्हता- सभी महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएँ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

विवरण- जीवन एक पहेली की तरह है। व्यक्ति अपनी सूझ-बूझ, मेहनत, आत्मविश्वास, उमंग और उत्साह के साथ प्रत्येक पहेली को हल करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। प्रखर और प्रतिभाशाली बनने के लिए संघर्ष और चुनौतियों को हर कदम पर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी को आधार मानते हुए तूर्यनाद'22 लेकर आ रहा है **“चक्रव्यूह (ट्रेजर हंट)”**, जिसमें संस्थान के विभिन्न स्थान पर छात्रों के लिए सुराग(पहेली) रखा गया है, जिसका हल उन्हें अपनी योग्यता व तर्कशक्ति के आधार पर ढूँढना होगा।

नियमावली :-

1. इस प्रतियोगिता में केवल एक ही चरण होगा।
2. प्रतिभागियों को दो के समूह में अपना पंजीयन कराना होगा, अगर प्रतिभागी साथी नहीं ढूँढ पता तो समिति द्वारा उसे दूसरे प्रतिभागी के साथ समूह में डाला जाएगा।
3. प्रत्येक पहेली को हल करने के पश्चात दूसरा कार्य भी पूरा करना होगा। यदि कार्य हल करने में असमर्थ हुए तो, दंड के रूप में जल्दी-जल्दी कहा हुआ वाक्य (टंग ट्विस्टर) या 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करनी होगा तभी नए स्थान की पहेली दी जाएगी।
4. हर स्थान पर “पहले आओ पहले पाओ” नियम लागू होगा, जो पहले आएगा उससे पहले मौका दिया जाएगा। हर स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे।
5. कोई भी प्रतिभागी अगर अनुचित एवं गलत माध्यम का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

6. किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग वर्जित है।
7. प्रतिभागी अपने साथ अपनी कलम साथ लाएं।
8. जो भी प्रतिभागी सारी पहेलियों को सुलझाते हुए सबसे कम समय में अंतिम स्थान पर पहुंचेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा।

“ ना रुकना, ना हार मानना, ना संघर्ष छोड़ना

जीवन की पहेलियों की तरह इनसे भी जूझना ”

“ कोशिश आखिरी वक्त तक करना

या तो तुम सफलता पाओगे

या फिर अनुभव ”

जिंदगी एक खेल है यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो पर कभी जीत नहीं सकते!

दिनांक– 18 सितम्बर 2022

समय– प्रातः 10 बजे से प्रारंभ

स्थान– संस्थान द्वारमंडप, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

कुल पुरस्कार राशि - 6000 ₹

पंजीयन करें– tooryanaad.in

इंस्टाग्राम– [@tooryanaad](https://www.instagram.com/tooryanaad)

ट्विटर– [tooryanaad/nitb](https://twitter.com/tooryanaad/nitb)

फेसबुक पेज–www.facebook.com/tooryanaad

अण्डाक– chakravyuh.tooryanaad@gmail.com

संपर्क सूत्र -

देवेश जांगिड - 9610735411

आशु राजपूत - 8770732906

